

AU-1461

B.Com. Part—II Examination
COMMERCE
(Income Tax and Auditing)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note :— All questions are compulsory.

SECTION—A

(Income Tax)

1. (a) Explain the meaning of tax planning. 5
- (b) Give items of Income included in Casual Income. 5

OR

- (c) Explain the term 'Taxable Income'. 5
- (d) What are the 'Heads of Income' ? 5
2. Mr. Prasad running cloth business has prepared the following P & L A/c for the year ending 31st March, 2017. You are required to compute his income from business for the assessment year 2017-18 :

Profit and Loss A/c

Trade Expenses	4,500	Gross Profit	13,59,000
Establishment Charges	22,000	Dividend from Society	26,000
Rent, Rates, Taxes	14,000	Rent from Property	5,000
Discounts and Allowances	2,000	Bad Debts recovered	
Income Tax	7,000	(allowed as deduction in the	
Interest	14,500	earlier year)	20,000
Postage and Telegraph	1,000		
Presents to Customer	1,250		
Fir Insurance Premium	2,500		

Charities	3,750	
Donations	4,000	
Office Stationery	2,500	
Audit Fee	2,500	
Net Profit	13,28,500	
	<u>14,10,000</u>	<u>14,10,000</u>

15

OR

Shri Sudhir Khedkar, an Indian Citizen, resident in India, furnished the undemoted particulars of his income for the year ended 31st March, 2017 :

- | | |
|--|---------------|
| (i) Basic Salary | 7,20,000 |
| (ii) Dearness Allowance | 10,40,000 |
| (iii) House Rent Allowance | 10% of salary |
| (iv) Own contribution to recognised Provident Fund calculated on basic salary | 1,00,800 |
| (v) Employer's contribution to the said fund | 1,00,800 |
| (vi) Interest on balance in recognised Provident Fund (not exceeding the prescribed rate) | 70,000 |
| (vii) Bonus | 60,000 |
| (viii) He was provided a small car for which the employer paid all the running and maintenance cost. The car was used for personal as well as office purposes. | |
| (ix) He paid Rs. 2,500 as Professional Tax. | |

Assuming that he was living in his own house, calculate income from salary. 15

3. (a) Explain the deductions u/s 80 C. 5
- (b) What is the structure of authorities in the Income Tax Act ? 5

OR

- (c) Explain the deduction u/s 80 D. 5
- (d) Write the powers of an Income Tax Officer. 5

SECTION—B

(Auditing)

4. (a) Explain the meaning of Auditing. 5
(b) Explain the advantages of internal check system. 5

OR

- (c) Explain the kinds of Audit programme. 5
(d) What steps should an Auditor take before commencing the actual work of Auditing ? 5

5. (a) Write on Liabilities of an Auditor. 5
(b) Write on Divisible Profit. 5

OR

- (c) Duties of Auditor regarding Dividend. 5
(d) Write on power of an Auditor. 5

6. Explain the procedure of Audit of Bank. 15

OR

Write on the Audit of Insurance Company. 15

AU-1461

B.Com. Part—II Examination
COMMERCE
(Income Tax and Auditing)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(मराठी माध्यम)

सूचना :- सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

विभाग-अ

(आयकर)

1. (अ) करनियोजनाचा अर्थ स्पष्ट करा. 5
- (ब) आकस्मिक उत्पन्नात समाविष्ट होणाऱ्या उत्पन्नाची पदे सांगा 5
- किंवा
- (क) करदेय उत्पन्नाची संकल्पना स्पष्ट करा. 5
- (ड) उत्पन्नाची शिर्षके कोणती ? 5
2. श्री. प्रसाद यांचा कापडाच्या व्यवसाय आहे. 31 मार्च 2017 रोजाचा नफातोटा खालीलप्रमाणे आहे. करनिर्धारण वर्ष 2017-18 करिता व्यवसायापासून करदेय उत्पन्न काढा :

नफातोटा पत्रक

व्यापारी व्यय	4,500	सकल नफा	13,59,000
स्थापना व्यय	22,000	सोसायटी कडून लाभांश	26,000
भाडे, दर, कर	14,000	घराचे भाडे	5,000
अपहार व सुट	2,000	बुडीत कर्जाची वसुली	
आयकर	7,000	(गत वर्षा मध्ये कपात मान्य	
ब्याज	14,500	केली होती)	20,000
पोस्टेज व टेलीग्राम	1,000		
ग्राहकांना भेट	1,250		
अग्नी विमा प्रत्याजी	2,500		

धार्मिक दान	3,750	
देणगी	4,000	
कार्यालय स्टेशनरी	2,500	
अंकेक्षण शुल्क	2,500	
शुद्ध नफा	13,28,500	
	14,10,000	14,10,000

15

किंवा

श्री. सुधीर खेडकर जे भारताचे नागरीक आणि निवासी आहेत. 31 मार्च 2017 ला समाप्त होणाऱ्या वर्षाकरीता त्यांच्या आयचे विवरण खालील प्रमाणे आहे :

(i) मुळ वेतन	7,20,000
(ii) महगाई भत्ता	10,40,000
(iii) घरभाडे भत्ता मुळ वेतनाच्या	10%
(iv) मूलभूत वेतनानुसार गणतेतील मान्यता प्राप्त प्रमाणीत भविष्य निधीत स्वतःचे योगदान	1,00,800
(v) वरील निधीत सेवायोजकाचे योगदान	1,00,800
(vi) प्रमाणीत भविष्य निधी मधील शिल्लकेवर व्याज (निर्धारित दरापेक्षा जास्त नाही)	70,000
(vii) बोनस	60,000
(viii) त्यांना सेवायोजना द्वारे एक लहान कार दिली असून तिच्या देखभालाचा व चालविण्याचा संपूर्ण खर्च सेवायोजक करतो. कारचा उपयोग खाजगी तसेच कार्यालयीन कामाकरीता होतो.	

(ix) त्याने रु. 2,500 व्यवसाय कर भरला.

तो स्वतःच्या घरात राहतो असे गृहीत घेऊन वेतनापासूनचे उत्पन्न निर्धारित करा.

15

3. (अ) अनु. 80 C कपात स्पष्ट करा.

5

(ब) आयकर अधिनियमा अंतर्गत आयकर पक्षधिकाऱ्यांची रचना लिहा.

5

किंवा

(क) अनु. 80 D बाबत माहिती लिहा.

5

(ड) आयकर अधिकाऱ्याच्या अधिकाराबाबत माहिती लिहा.

5

विभाग-ब

(अंकेक्षण)

4. (अ) अंकेक्षणाच्या अर्थ स्पष्ट करा. 5
(ब) अंतर्गत नियंत्रण पद्धतीचे फायदे स्पष्ट करा 5

किंवा

- (क) अंकेक्षण कार्यक्रमाचे प्रकार स्पष्ट करा. 5
(ड) अंकेक्षण प्रारंभ करण्यापूर्वी अंकेक्षकाला कोणते कार्य करावी लागतात ? 5
5. (अ) अंकेक्षकाच्या जबाबदाऱ्या लिहा. 5
(ब) 'वितरण योग्य लाभ' स्पष्ट करा. 5

किंवा

- (क) लाभांश संबंधात अंकेक्षकाची कर्तव्ये लिहा. 5
(ड) अंकेक्षकाचे अधिकार स्पष्ट करा 5
6. अधिकोषाच्या अंकेक्षणची कार्यपद्धती लिहा. 15

किंवा

- विमा कंपनीच्या अंकेक्षणाबाबत लिहा. 15

AU-1461

B.Com. Part—II Examination
COMMERCE
(Income Tax and Auditing)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

विभाग-अ

(आयकर)

1. (अ) करनियोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 5
- (ब) आकस्मिक आय में कौनसी आय का समावेश होता है ? 5
- अथवा
- (क) 'करदेय आय' संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 5
- (ड) 'आय' के शीर्ष कौनसे हैं ? 5
2. मि. प्रसाद का कपड़े का व्यापार है। इनका 31 मार्च 2017 का लाभ हानि खाता निम्न प्रकार है। करनिर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए व्यापार से करदेय आय निकालिए :

लाभ हानि खाता

व्यापार व्यय	4,500	सकल नफा	13,59,000
प्रतिस्थापन व्यय	22,000	सोसायटी लाभांश	26,000
किराया, दर व कर	14,000	संपत्ती से भाड़े	5,000
छूट व भत्ता	2,000	डुबे हुए ऋण वसूल हुये	
आयकर	7,000	(जो पिछले वर्ष में कटौती	
ब्याज	14,500	स्वीकृत थे)	20,000
डाक तथा तार	1,000		
ग्राहकों को भेंट	1,250		
अग्नि बीमा प्रब्याजी	2,500		

अल्पदान	3,750	
दान	4,000	
कार्यालय स्टेशनरी	2,500	
अकेक्षण शुल्क	2,500	
शुद्ध लाभ	13,28,500	
	<u>14,10,000</u>	<u>14,10,000</u>

15

अथवा

श्री. सुधीर खेडकर जो भारत का नागरिक तथा निवासी है। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष की आय का विवरण निम्न है :

(i) मूल वेतन	7,20,000
(ii) भहंगाई भत्ता	10,40,000
(iii) मकान किराया भत्ता मूलवेतन का	10%
(iv) मूल वेतन की गणना में मान्यता प्राप्त प्रमाणित भविष्य निधि में स्वयं का अंशदान	1,00,800
(v) उपरोक्त निधि में नियोक्ता का अंशदान	1,00,800
(vi) प्रमाणित भविष्य के शेषपर ब्याज (निर्धारित दर से अधिक नहीं)	70,000
(vii) बोनस	60,000

(viii) उसे एक छोटी कार नियोक्ता द्वारा दी गयी है जिसके रखरखाव तथा चलाने के संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है। कार निजी तथा कार्यालय काम के लिए प्रयोग होती है।

(ix) उन्होंने व्यवसाय कर दिया रु. 2,500 ।

अपने खुद के मकान पर रहते हैं, ऐसा सोचकर उनका वेतन से करदेय आय निश्चित कीजिए।

15

3. (अ) धारा 80 C की जानकारी दीजिए। 5
- (ब) आयकर अधिनियम के अंतर्गत किन-किन प्राधिकारियों का वर्णन किया गया है। 5

अथवा

- (क) धारा 80 D स्पष्ट कीजिए। 5
- (ड) आयकर पदाधिकारी के अधिकार पर लिखिए। 5

विभाग-ब

(अंकेक्षण)

4. (अ) अंकेक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 5
(ब) अंतर्गत जाँच पद्धति के लाभ स्पष्ट कीजिए। 5

अथवा

- (क) अंकेक्षण कार्यक्रम के प्रकार स्पष्ट कीजिए। 5
(ड) अंकेक्षण प्रारंभण करने के पहले अंकेक्षक को कौनसी कार्यवाही करनी पड़ती है ? 5
5. (अ) अंकेक्षक की जिम्मेदारियां लिखिए। 5
(ब) 'वितरण योग्य लाभ' स्पष्ट कीजिए। 5

अथवा

- (क) लाभानु के संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्यों पर लिखिए। 5
(ड) अंकेक्षक के अधिकार स्पष्ट कीजिए। 5
6. अधिकोष का अंकेक्षण करने की कार्यपद्धति स्पष्ट कीजिए। 15

अथवा

- बीमा कंपनी के अंकेक्षण के बारे में लिखिए। 15

